



### सिटी ने निवासियों और कारोबारियों को, 19 अगस्त तक टैक्स भुगतानों पर सारे जुर्मानों से दी गई छूट जारी रखी है

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (4 मई, 2020) – सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, निवासियों और कारोबारियों के लिए, 18 मार्च से 19 अगस्त, 2020 तक, पांच महीने की अवधि के लिए, टैक्स भुगतानों पर ब्याज और लेट फीस से छूट को जारी रख रही है। यह उस इंटरिम टैक्स बिल (Interim Tax Bill) के लिए है, जो जनवरी में डाक से भेजा गया था।

भुगतान स्थगित करने का यह प्रोग्राम, COVID-19 को फैलने से रोकने के लिए, 21 मार्च को पेश किया गया था।

जिन लोगों ने प्री-अथॉराइज़्ड टैक्स भुगतान रद्द करने के लिए, अभी तक सिटी को संपर्क नहीं किया है और मई व जून की किश्तों के लिए ऐसा करना चाहते हैं, उनके लिए सिटी की वेबसाइट पर [ऑनलाइन फार्म \(online form\)](#) भरकर अपना निवेदन जमा करना जरूरी है। बाद में, प्री-अथॉराइज़्ड टैक्स भुगतान को दुबारा शुरू करने के लिए, भुगतान होल्डर को, सिटी के पास दुबारा आवेदन करना होगा।

जिन लोगों के टैक्सों का भुगतान, उनके मोर्गेज के हिस्से के तौर पर किया जाता है, उनके लिए अपने मोर्गेज प्रदाता को संपर्क करके, यह पता करना जरूरी है कि वे टैक्स भुगतान रद्द कर सकते हैं या नहीं। मोर्गेज प्रदाता के लिए जरूरी है कि वह सिटी को कहे कि वह अपनी सूची में से निवासी/कारोबारी का नाम हटा दे।

टैक्स स्थगित करने का मतलब, टैक्स रद्द होना नहीं है। सभी स्थगित की गई रकमों, 19 अगस्त से पहले सिटी को मिलनी आवश्यक हैं। वरना, उस समय किसी भी बकाया रकम पर जुर्माना और ब्याज लग जाएगा। टैक्स देने वाले, 19 अगस्त की अंतिम तिथि से पहले, किसी भी स्थगित किए टैक्सों का छोटी किश्तों में या एकमुश्त (एक बार में ही पूरी रकम) भुगतान कर सकते हैं।

जुलाई के शुरू में, सिटी, 23 सितम्बर, 21 अक्टूबर और 18 नवंबर को, भुगतान करने की नियत तारीखों के साथ, एक फाइनल टैक्स बिल (Final Tax Bill) जारी करेगी।

-30-

#### मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)